



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2006/पौष 30, 1927

No. 27]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2006/PAUSA 30, 1927

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( डाक विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2006

सा.का.नि.30(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 43 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (संशोधन) नियमावली, 2006 कहा जाएगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 144 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को सम्मिलित किया जाए, नामतः—

“तत्काल धनादेश (आईएमओ)”

144क. तत्काल धनादेश जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘आईएमओ’ कहा जाएगा, की सेवा के माध्यम से एक हजार से अधिक और पचास हजार से अनधिक राशि को अंतरित किया जा सकता है।

**स्पष्टीकरण :**— इस अंश के प्रयोजन से आईएमओ सेवा का अभिप्राय भारत क्षेत्र में निवास करने वाले दो व्यक्तियों के बीच डाकघर के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत वेब-आधारित तत्काल धन अंतरण सेवा से है।

144ख. केन्द्र सरकार समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा उन डाकघरों को नामनिर्दिष्ट कर सकती है जहां से आईएमओ प्रेषित अथवा भुगतान किए जा सकते हैं अथवा जहां भी आवश्यक हो, उन डाकघरों से आईएमओ सेवा को निलंबित कर सकती है।

144ग. केन्द्र सरकार समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा आईएमओ के माध्यम से धन के प्रेषण के लिए कमीशन की दर और विशेष संदेशों, यदि कोई हैं, के लिए लागू प्रभार भी निर्धारित कर सकती है।

144घ. धन का प्रेषण इस प्रकार से और ऐसे रूप में होना चाहिए जो डाक महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।

144ङ (1) विधिवत् भरा हुआ फार्म और आईएमओ की राशि, व्यक्तिगत संदेशों के लिए देय कमीशन तथा प्रभार, यदि कोई है, नामनिर्दिष्ट डाकघर में आईएमओ लेन-देन के लिए निर्धारित कार्य-समय के दौरान प्रस्तुत किए जाएं।

(2) प्रेषक को एक रसीद दी जाएगी और रसीद में निर्धारित स्थान में एक गोपनीय आईएमओ संख्या सीलबन्द रूप में लिखी होगी।

(3) प्रेषक आदाता को अपने प्रयासों से और अपने जोखिम पर आईएमओ संख्या की सूचना दे सकता है।

(4) आदाता बुकिंग डाकघर से अन्यथा किसी अन्य नामनिर्दिष्ट डाकघर में निर्धारित फार्म में गोपनीय आईएमओ संख्या के साथ आईएमओ के भुगतान के लिए अनुरोध कर सकता है।

(5) काउंटर डाक सहायक/पर्यवेक्षक गोपनीय आईएमओ संख्या के सत्यापन, आदाता की पहचान की स्थापना और वास्तविक बुकिंग की सत्यता जांचने के पश्चात् आदाता को आईएमओ का भुगतान कर सकता है।

144च. प्रेषक यदि निर्धारित फार्म में आईएमओ का उसे वापिस भुगतान करने का अनुरोध करता है, तो उस पर विचार किया जाएगा, यदि आदाता को उसका भुगतान पहले न कर दिया गया हो और वह गोपनीय आईएमओ संख्या सहित जारी की गई रसीद, अपनी पहचान का प्रमाण तथा आदाता का पूरा विवरण प्रस्तुत करे।

144छ. यदि आईएमओ का प्रेषक अथवा आदाता निरक्षर है, तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाए और महानिदेशक के निदेशानुसार तरीके से इसका सत्यापन किया जाए।

[फा. सं. 95-11/2003-एफएस]

पी. गोपीनाथ, उप महानिदेशक (वित्तीय सेवाएं)

**टिप्पणी :**—दिनांक 1-1-1975 तक यथासंशोधित मुख्य नियम जो डाक-तार नियमावली खंड-1, विधायी अधिनियम, भाग-1, पाचवें संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं, बाद में इनके द्वारा संशोधित हुए हैं :—

1. सा.का.नि. 2888 दिनांक 19-12-1975
2. सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 30-12-1975
3. सा.का.नि. 741(अ), दिनांक 31-12-1975
4. सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 24-1-1976
5. सा.का.नि. 93(अ), दिनांक 25-2-1976
6. सा.का.नि. 811(अ), दिनांक 31-5-1976
7. सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 21-6-1976
8. सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 7-1-1978
9. सा.का.नि. 304(अ), दिनांक 29-5-1978
10. सा.का.नि. 316(अ), दिनांक 18-5-1979
11. सा.का.नि. 4118(अ), दिनांक 29-12-1979
12. सा.का.नि. 1256(अ), दिनांक 13-5-1980
13. सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 26-6-1980
14. सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 26-6-1980
15. सा.का.नि. 380(अ), दिनांक 5-6-1980
16. सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 26-9-1981
17. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 11-2-1982
18. सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 22-5-1982
19. सा.का.नि. 411(अ), दिनांक 13-5-1982
20. सा.का.नि. 520(अ), दिनांक 10-8-1982
21. सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 20-1-1983
22. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 2-2-1983
23. सा.का.नि. 92(अ), दिनांक 21-2-1983
24. सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 25-5-1983
25. सा.का.नि. 37(अ), दिनांक 17-1-1984
26. सा.का.नि. 1652(अ), दिनांक 19-5-1984
27. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 16-4-1986
28. सा.का.नि. 329(अ), दिनांक 3-5-1986
29. सा.का.नि. 461, दिनांक 14-6-1986
30. सा.का.नि. 2420, दिनांक 28-6-1986
31. सा.का.नि. 436(अ), दिनांक 24-7-1986
32. सा.का.नि. 2460(अ), दिनांक 24-7-1986
33. सा.का.नि. 3677(अ), दिनांक 25-10-1986
34. सा.का.नि. 1333(अ), दिनांक 29-12-1986
35. सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 6-2-1987
36. सा.का.नि. 548(अ), दिनांक 28-2-1987
37. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 10-4-1987
38. सा.का.नि. 265(अ), दिनांक 11-4-1987
39. सा.का.नि. 480(अ), दिनांक 29-4-1987
40. सा.का.नि. 531(अ), दिनांक 27-5-1987
41. सा.का.नि. 438, दिनांक 6-6-1987
42. सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 27-8-1987
43. सा.का.नि. 688, दिनांक 30-8-1987
44. सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 2-9-1987
45. सा.का.नि. 829(अ), दिनांक 15-9-1987
46. सा.का.नि. 823(अ), दिनांक 15-9-1987
47. सा.का.नि. 976(अ), दिनांक 9-11-1987
48. सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 1-1-1988
49. सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1-1-1988
50. सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 15-1-1988
51. सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 26-2-1988
52. सा.का.नि. 344(अ), दिनांक 4-3-1988
53. सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 14-4-1988
54. सा.का.नि. 462(अ), दिनांक 2-5-1988
55. सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 23-5-1988
56. सा.का.नि. 683, दिनांक 7-6-1988
57. सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 29-6-1988
58. सा.का.नि. 633(अ), दिनांक 1-7-1988
59. सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 8-7-1988
60. सा.का.नि. 686(अ), दिनांक 26-9-1988
61. सा.का.नि. 1022(अ), दिनांक 31-12-1988
62. सा.का.नि. 14(अ), दिनांक 4-1-1989
63. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10-1-1989
64. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 24-2-1989
65. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 28-2-1989
66. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 1-3-1989

- |  |  |
|--|--|
| 67. सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 1-5-1989    | 101. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 18-2-1994  |
| 68. सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 9-6-1989    | 102. सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 26-3-1994  |
| 69. सा.का.नि. 478(अ), दिनांक 24-6-1989   | 103. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 2-6-1994   |
| 70. सा.का.नि. 639, दिनांक 26-8-1989      | 104. सा.का.नि. 502(अ), दिनांक 8-6-1994   |
| 71. सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 12-10-1989  | 105. सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 7-11-1994  |
| 72. सा.का.नि. 821(अ), दिनांक 16-10-1989  | 106. सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 5-12-1994  |
| 73. सा.का.नि. 898(अ), दिनांक 2-12-1989   | 107. सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 21-12-1994 |
| 74. सा.का.नि. 965(अ), दिनांक 12-12-1989  | 108. सा.का.नि. 873(अ), दिनांक 21-12-1994 |
| 75. सा.का.नि. 1077(अ), दिनांक 29-12-1989 | 109. सा.का.नि. 931(अ), दिनांक 26-12-1994 |
| 76. सा.का.नि. 1078(अ), दिनांक 29-12-1989 | 110. सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 24-2-1995  |
| 77. सा.का.नि. 967, दिनांक 30-12-1989     | 111. सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 18-4-1995  |
| 78. सा.का.नि. 198(अ), दिनांक 5-2-1990    | 112. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 14-6-1995  |
| 79. सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 1-3-1990    | 113. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 13-11-1995 |
| 80. सा.का.नि. 197, दिनांक 5-3-1990       | 114. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 13-11-1995 |
| 81. सा.का.नि. 312(अ), दिनांक 5-4-1990    | 115. सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 20-11-1995 |
| 82. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 30-4-1990   | 116. सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 29-11-1995 |
| 83. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 11-5-1990   | 117. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 7-12-1995  |
| 84. सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 5-6-1990    | 118. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 7-5-1996   |
| 85. सा.का.नि. 545(अ), दिनांक 5-6-1990    | 119. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 21-8-1996  |
| 86. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 13-6-1990   | 120. सा.का.नि. 427(अ), दिनांक 18-9-1996  |
| 87. सा.का.नि. 68, दिनांक 10-8-1990       | 121. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 6-11-1996  |
| 88. सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 18-8-1990   | 122. सा.का.नि. 573(अ), दिनांक 18-12-1996 |
| 89. सा.का.नि. 671(अ), दिनांक 31-8-1990   | 123. सा.का.नि. 267(अ), दिनांक 19-5-1997  |
| 90. सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 11-9-1990   | 124. सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 30-5-1997  |
| 91. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 12-10-1990  | 125. सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 10-6-1997  |
| 92. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 20-9-1991   | 126. सा.का.नि. 351(अ), दिनांक 26-6-1997  |
| 93. सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 6-4-1992    | 127. सा.का.नि. 723(अ), दिनांक 26-12-1997 |
| 94. सा.का.नि. 79, दिनांक 4-1-1993        | 128. सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 21-1-1998   |
| 95. सा.का.नि. 259(अ), दिनांक 5-3-1993    | 129. सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 21-1-1998   |
| 96. सा.का.नि. 420(अ), दिनांक 17-5-1993   | 130. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 26-7-1998  |
| 97. सा.का.नि. 615(अ), दिनांक 20-9-1993   | 131. सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 19-8-1998  |
| 98. सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 16-9-1993   | 132. सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 21-1-1999   |
| 99. सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 27-12-1993  | 133. सा.का.नि. 46(अ), दिनांक 22-1-1999   |
| 100. सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 21-1-1994   | 134. सा.का.नि. 77(अ), दिनांक 9-2-1999    |

135. सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 13-5-1999
136. सा.का.नि. 357(अ), दिनांक 27-4-2000
137. सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 25-8-2000
138. सा.का.नि. 71(अ), दिनांक 7-2-2001
139. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 24-5-2001
140. सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 3-1-2002
141. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 11-1-2002
142. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 14-5-2002
143. सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 24-5-2002
144. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 2-9-2002
145. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 11-9-2002
146. सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 4-9-2003
147. सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 10-8-2004
148. सा.का.नि. 292(अ), दिनांक 13-5-2005

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

### NOTIFICATION

New Delhi, 20th January, 2006

**G.S.R. 30(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 43 read with section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933, after rule 144, insert the following rules, namely:—

#### “Instant Money Order”

144 A. Money can be transferred through the service of Instant Money Order here-in-after referred to as ‘IMO’, for an amount not less than Rupees one thousand and not more than Rupees fifty thousand.

*Explanation.*—For the purpose of this part, ‘IMO’ service means a computerized web-based instant money transfer service between two resident individuals in the territory of India through the Post Office.

144 B. The Central Government may specify, by order issued from time to time, the Post offices from where the ‘IMO’ may be remitted or paid or wherever necessary, suspend the ‘IMO’ services from those post offices.

144 C. The Central Government may, by order issued from time to time, prescribe the rates of commission and charges for specialized message, if any, applicable for remittance of money through ‘IMO’.

144 D. The remittance of money may be made in such manner and in such form as may be prescribed by the Director General of Posts, from time to time.

144 E. (1) The form duly filled together with the amount of ‘IMO’, the commission and the charges, if any, payable for personalized message, may be presented at the specified post office during the hours prescribed for ‘IMO’ transactions.

(2) A receipt thereof shall be given to the remitter along with a confidential ‘IMO’ number in a sealed condition in the space provided in the receipt.

(3) The remitter shall inform the payee at his own means and risk, the confidential ‘IMO’ number.

(4) The payee may present his request for payment of ‘IMO’ along with the confidential ‘IMO’ number in the prescribed form in any specified post office other than the post office of its booking.

(5) The Counter Postal Assistant/Supervisor shall arrange for payment of ‘IMO’ to the payee after verifying the confidential ‘IMO’ number, identity of the payee and the correctness of its actual booking.

144 F. On a request by the remitter in the prescribed form for repayment of ‘IMO’ to him, the same may be paid, if not already paid to the payee, on production of receipt issued to him along with the confidential ‘IMO’ number, proof of his identity and full particulars of the payee.

144 G. If the remitter or payee of the ‘IMO’ is illiterate, his thumb mark shall be obtained and verified in such a manner as the Director General may direct.

[F. No. 95-11/2003-FS]

P. GOPINATH, Dy. Director General (Financial Services)

**Note:**— The principal rules as amended upto 1-1-1975 have been published in the Post and Telegraphs Manual Volume-I, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and subsequently amended by:—

1. G.S.R. 2888, dated 19-12-75
2. G.S.R. 596(E), dated 30-12-75
3. G.S.R. 741(E), dated 31-12-75
4. G.S.R. 472(E), dated 24-1-76
5. G.S.R. 93(E), dated 25-2-76
6. G.S.R. 811(E), dated 31-5-76
7. G.S.R. 943(E), dated 21-6-76
8. G.S.R. 135(E), dated 7-1-78
9. G.S.R. 304(E), dated 29-5-78

10. G.S.R. 316(E), dated 18-5-79
11. G.S.R. 4118(E), dated 29-12-79
12. G.S.R. 1256(E), dated 13-5-80
13. G.S.R. 490(E), dated 26-6-80
14. G.S.R. 491(E), dated 26-6-80
15. G.S.R. 380(E), dated 5-6-81
16. G.S.R. 409(E), dated 26-9-81
17. G.S.R. 59(E), dated 11-2-82
18. G.S.R. 417(E), dated 22-5-82
19. G.S.R. 411(E), dated 13-5-82
20. G.S.R. 520(E), dated 10-8-82
21. G.S.R. 33(E), dated 20-1-83
22. G.S.R. 49(E), dated 2-2-83
23. G.S.R. 92(E), dated 21-2-83
24. G.S.R. 444(E), dated 23-5-83
25. G.S.R. 37(E), dated 17-1-84
26. G.S.R. 1652(E), dated 19-5-84
27. G.S.R. 673(E), dated 16-4-86
28. G.S.R. 329, dated 3-5-86
29. G.S.R. 461, dated 14-6-86
30. G.S.R. 2420, dated 28-6-86
31. G.S.R. 436(E), dated 24-7-86
32. G.S.R. 2460(E), dated 24-7-86
33. G.S.R. 3677(E), dated 25-10-86
34. G.S.R. 1333(E), dated 29-12-86
35. G.S.R. 85(E), dated 6-2-87
36. G.S.R. 548(E), dated 28-2-87
37. G.S.R. 379(E), dated 10-4-87
38. G.S.R. 265(E), dated 11-4-87
39. G.S.R. 480(E), dated 29-4-87
40. G.S.R. 531(E), dated 27-5-87
41. G.S.R. 438(E), dated 6-6-87
42. G.S.R. 632(E), dated 27-8-87
43. G.S.R. 688(E), dated 30-8-87
44. G.S.R. 807(E), dated 2-9-87
45. G.S.R. 829(E), dated 15-9-87
46. G.S.R. 823(E), dated 15-9-87
47. G.S.R. 976(E), dated 9-11-87
48. G.S.R. 1(E), dated 1-1-88
49. G.S.R. 2(E), dated 1-1-88
50. G.S.R. 55(E), dated 15-1-88
51. G.S.R. 212(E), dated 26-2-88
52. G.S.R. 344(E), dated 4-3-88
53. G.S.R. 388(E), dated 14-4-88
54. G.S.R. 462(E), dated 2-5-88
55. G.S.R. 639(E), dated 23-5-88
56. G.S.R. 683(E), dated 7-6-88
57. G.S.R. 624(E), dated 29-6-88
58. G.S.R. 633(E), dated 1-7-88
59. G.S.R. 684(E), dated 8-7-88
60. G.S.R. 866(E), dated 26-9-88
61. G.S.R. 1022(E), dated 31-12-88
62. G.S.R. 14(E), dated 4-1-89
63. G.S.R. 68(E), dated 10-1-89
64. G.S.R. 180(E), dated 24-2-89
65. G.S.R. 223(E), dated 28-2-89
66. G.S.R. 180(E), dated 1-3-89
67. G.S.R. 314(E), dated 1-5-89
68. G.S.R. 435(E), dated 9-6-89
69. G.S.R. 478(E), dated 24-6-89
70. G.S.R. 639(E), dated 26-8-89
71. G.S.R. 804(E), dated 12-10-89
72. G.S.R. 821(E), dated 16-10-89
73. G.S.R. 898, dated 2-12-89
74. G.S.R. 965, dated 12-12-89
75. G.S.R. 1077(E), dated 29-12-89
76. G.S.R. 1078(E), dated 29-12-89
77. G.S.R. 967(E), dated 30-12-89
78. G.S.R. 198(E), dated 5-2-90
79. G.S.R. 100(E), dated 1-3-90
80. G.S.R. 197(E), dated 5-3-90
81. G.S.R. 312(E), dated 5-4-90
82. G.S.R. 358(E), dated 30-4-90
83. G.S.R. 379(E), dated 11-5-90
84. G.S.R. 544(E), dated 5-6-90
85. G.S.R. 545(E), dated 5-6-90
86. G.S.R. 783(E), dated 13-6-90
87. G.S.R. 68(E), dated 10-8-90

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 88. G.S.R. 628(E), dated 18-8-90   | 119. G.S.R. 372(E), dated 21-8-96   |
| 89. G.S.R. 671(E), dated 31-8-90   | 120. G.S.R. 427(E), dated 18-9-96   |
| 90. G.S.R. 694(E), dated 11-9-90   | 121. G.S.R. 517(E), dated 6-11-96   |
| 91. G.S.R. 783(E), dated 12-10-90  | 122. G.S.R. 573(E), dated 18-12-96  |
| 92. G.S.R. 622(E), dated 20-9-91   | 123. G.S.R. 267(E), dated 19-5-97   |
| 93. G.S.R. 178, dated 6-4-92       | 124. G.S.R. 295(E), dated 30-5-97   |
| 94. G.S.R. 79(E), dated 4-1-93     | 125. G.S.R. 318(E), dated 10-6-97   |
| 95. G.S.R. 259(E), dated 5-3-93    | 126. G.S.R. 351(E), dated 26-6-97   |
| 96. G.S.R. 420(E), dated 17-5-93   | 127. G.S.R. 723(E), dated 26-12-97  |
| 97. G.S.R. 615(E), dated 20-9-93   | 128. G.S.R. 41(E), dated 21-1-98    |
| 98. G.S.R. 616(E), dated 16-9-93   | 129. G.S.R. 42(E), dated 22-1-98    |
| 99. G.S.R. 778(E), dated 27-12-93  | 130. G.S.R. 406(E), dated 26-7-98   |
| 100. G.S.R. 43(E), dated 21-1-94   | 131. G.S.R. 503(E), dated 19-8-98   |
| 101. G.S.R. 193(E), dated 18-2-94  | 132. G.S.R. 40(E), dated 22-1-99    |
| 102. G.S.R. 152, dated 26-3-94     | 133. G.S.R. 46(E), dated 22-1-99    |
| 103. G.S.R. 434(E), dated 2-6-94   | 134. G.S.R. 77(E), dated 9-2-99     |
| 104. G.S.R. 502(E), dated 8-6-94   | 135. G.S.R. 345(E), dated 13-5-99   |
| 105. G.S.R. 793(E), dated 7-11-94  | 136. G.S.R. 357(E), dated 23-4-2000 |
| 106. G.S.R. 836(E), dated 5-12-94  | 137. G.S.R. 672(E), dated 25-8-2000 |
| 107. G.S.R. 860(E), dated 21-12-94 | 138. G.S.R. 71(E), dated 7-2-2001   |
| 108. G.S.R. 873(E), dated 21-12-94 | 139. G.S.R. 387(E), dated 24-5-2001 |
| 109. G.S.R. 931(E), dated 26-12-94 | 140. G.S.R. 7(E), dated 3-1-2002    |
| 110. G.S.R. 121(E), dated 24-2-95  | 141. G.S.R. 23(E), dated 11-1-2002  |
| 111. G.S.R. 342(E), dated 18-4-95  | 142. G.S.R. 366(E), dated 14-5-2002 |
| 112. G.S.R. 484(E), dated 14-6-95  | 143. G.S.R. 381(E), dated 24-5-2002 |
| 113. G.S.R. 736(E), dated 13-11-95 | 144. G.S.R. 612(E), dated 2-9-2002  |
| 114. G.S.R. 737(E), dated 13-11-95 | 145. G.S.R. 637(E), dated 11-9-2002 |
| 115. G.S.R. 926(E), dated 20-11-95 | 146. G.S.R. 705(E), dated 4-9-2003  |
| 116. G.S.R. 764(E), dated 29-11-95 | 147. G.S.R. 514(E), dated 10-8-2003 |
| 117. G.S.R. 783(E), dated 7-12-95  | 148. G.S.R. 292(E), dated 13-5-2005 |
| 118. G.S.R. 201(E), dated 7-5-96   |                                     |